



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 10 पटना, बुधवार, 17 फाल्गुन 1944 (श०)
8 मार्च 2023 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०ए०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक
		पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

1 फरवरी 2023

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-17/2022/671-श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षक मद्य निषेध, समस्तीपुर के द्वारा मिडिया में बयान दिया गया कि शराब के सेवन के मामले में पकड़े गये अभियुक्त के लिए मुख्यालय के आदेश पर VIP हाजत का निर्माण किया गया है। इस आशय का समाचार दैनिक समाचार पत्र एवं सोशल मिडिया में प्रसारित हुआ। जबकि इस संबंध में मुख्यालय से कोई आदेश/निदेश निर्गत नहीं किया गया है। श्री कुमार से इसके संबंध में विभागीय पत्रांक-5312 दिनांक-11.10.2022 द्वारा 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

श्री कुमार का स्पष्टीकरण पत्रांक-172 दिनांक-16.01.2023 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित है कि जिला पदाधिकारी के निदेश के आलोक में उनके द्वारा मिडिया में बयान दिया गया है कि मद्य निषेध नीति के दुरुपयोग करने वाले VIP व्यक्ति को चिन्हित कर पकड़ने के लिए एक सेल बनाया गया है एवं कई VIP पकड़े भी गये हैं। परंतु मिडिया में VIP सेल बनाये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ जिसका खंडन दिनांक-10.10.2022 को पुनः प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किया गया।

वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी यू-ट्यूब पर VIP हाजत बनाये जाने का साक्ष्य मौजूद है। अतएव श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षक मद्य निषेध, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित के नियम-14 (i) के तहत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

02. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप-सचिव।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी 2023

सं० 1/नियो०निजी-06/2022 श्र०सं०-168-श्री आदित्य प्रकाश, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना के दिनांक 14.02.2023 से 10.03.2023 तक कुल 25 दिनों के उपार्जित अवकाश अवधि में सुश्री गार्गी, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री आदित्य प्रकाश के आवंटित कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार शाही, अवर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

13 फरवरी 2023

सं० 2स्था०-211/2021-444/वि०स०।-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक-LR: 130120231201421, LR NO: 0711/2022-2023 के आलोक में श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-04.01.2023 से 20.01.2023 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-21.01.2023 से 22.01.2023 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की भी अनुमति दी जा सकती है। इनके उपार्जित अवकाश कोष में शेष 283 दिनों की छुट्टी संग्रहित रहेगा।

आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।

22 फरवरी 2023

सं० 2स्था०-223/2021-553/वि०स०।-वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-210(22), दिनांक-17.01.2023 के आलोक में श्री यानपति, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सरकार के वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2498, दिनांक-12.04.2007 एवं संकल्प संख्या-1187, दिनांक-10.02.2011 के तहत दिनांक-03.01.2023 से 17.01.2023 तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत की जाती है।

आदेश से,

अनुपमा प्रसाद, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

27 फरवरी 2023

सं० 6 गो.-34-01/2021 खण्ड-I-743-वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री पंकज कुमार सिन्हा	36वीं	मुंगेर	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्यकर विभाग मुख्यालय, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
2	श्री पंकज कुमार प्रसाद	37वीं	पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अपील केन्द्रीय प्रमंडल, पटना एवं पटना पश्चिमी प्रमंडल (अपील) का अतिरिक्त प्रभार	राज्य कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) अंकेक्षण भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार सिन्हा,

राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

2 मार्च 2023

सं० 6/वि०पत्रा०-24-45/2008-820-श्री पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त, अपील, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त, अपील, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रुबी, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

2 मार्च 2023

सं० एल/एच०जी०-14-06/2018-2877-बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष) की सेवा बिहार पुलिस मेनुअल के नियम-648(क) में निहित प्रावधान के आलोक में उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती है:-

क्र०	नाम / पदनाम / पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4
1	श्री रवि कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सिवान	30.12.2019 (पूर्वाह्न)	30.12.2022

आदेश से,
नन्द किशोर, अवर सचिव।

Home Department
(Police Branch)

NOTIFICATION
The 21st February 2023

No. 7/CCA-1026/2001 H(P) 2627—Consequent upon the elevation of Hon'ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah as Hon'ble Judge of Supreme Court of India on 06.02.2023, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
 2. National Security Act, 1980
 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
- and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice **Ananta Manohar Badar**

Chairman

Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retired)

Member

Hon'ble Mr. Justice **Prabhat Kumar Jha** (Retired)

Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar,
Girish Mohan Thakur, Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>